

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2010
सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

आनंदपुर साहिब में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एसडीएस के अंतर्गत परियोजनाएं
†2010. श्री मनीश तिवारी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) श्री आनंदपुर साहिब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना (एस.डी.एस.) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधि के प्रति सूची-वार क्या कार्रवाई/कार्य/प्रस्ताव आरंभ किए गए या पूरे किए गए या कार्याधीन है;
- (ग) आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय नहीं की गई है; और
- (घ) क्या सरकार का भाखड़ा-नांगल बांध से सटे नांगल शहर, रूपनगर में सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन स्थल और संग्रहालय तथा रूपनगर में आर्द्रभूमि सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी इस सूची में शामिल करने का विचार है जिनमें इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय ने पंजाब राज्य में स्वदेश दर्शन योजना (एसडीएस) की विरासत थीम के तहत वर्ष 2018-19 में 94.51 करोड़ रुपए की संशोधित लागत से 'आनंदपुर साहिब - फतेहगढ़ साहिब - चमकौर साहिब - फिरोजपुर - खटकर कलां - कलानौर - पटियाला का विकास' नामक एक परियोजना को स्वीकृत किया है जिसका कार्यान्वयन चल रहा है। आनंदपुर साहिब में इस परियोजना के भाग के रूप में शामिल कार्य का विवरण अनुबंध में है।

(घ): मंत्रालय ने अब पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ देश में स्थायी एवं जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है एसडी 2.0 के तहत विकास के लिए पंजाब में कपूरथला और अमृतसर का चयन किया गया है।

अनुबंध

आनंदपुर साहिब में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एसडीएस के अंतर्गत परियोजनाएं के संबंध में दिनांक 19.12.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †2010 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत 'आनंदपुर साहिब - फतेहगढ़ साहिब - चमकौर साहिब - फिरोजपुर - खटकर कलां - कलानौर - पटियाला का विकास' परियोजना में आनंदपुर साहिब में शामिल कार्यों का विवरण।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गंतव्य	मुख्य घटक	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय
1	श्री आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब के समीप पाथवे	पेवर वर्क, वर्षा के पानी की निकासी, बाउंड्री वॉल, पेयजल कियोस्क, जीआरसी स्क्रीन, बेंच, कूड़ेदान	127.78	116.62
2	कैफेटेरिया और परिसर तथा पार्किंग सहित टीआईसी, आनंदपुर साहिब	पर्यटक व्याख्या केंद्र, पार्किंग, प्रवेश द्वार सहित बाउंड्री वॉल पेवर वर्क, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, वाई-फाई, गेजबॉस, लैंडस्केपिंग, बेंच, संकेतक, जीआरसी स्क्रीन	599.97	121.12
3	श्री केशगढ़ साहिब और श्री भोरा साहिब और श्री किला फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब को आपस में जोड़ने वाली सड़कों का सौंदर्यीकरण	पेवर वर्क, प्रवेश द्वार सहित चारदीवारी, पेयजल कियोस्क, जीआरसी स्क्रीन, लैंडस्केपिंग, एमएस पेरगोला	181.74	177.51
4	चीमा पार्क, आनंदपुर साहिब	पेवर वर्क, प्रवेश द्वार के साथ चारदीवारी, पेयजल कियोस्क, शौचालय, पार्किंग	109.11	42.41
5	विरासत-ए-खालसा, आनंदपुर साहिब	पार्किंग	56.02	56.02
6	पंज प्यारा पार्क, आनंदपुर साहिब	बागवानी और लैंडस्केप, वाटर कूलर सहित आरओ, कियोस्क,	319.73	50.28

		मूरल्स, गज़ेबो, म्यूजिकल फाउंटैन, सिविल वर्क		
7	सड़क वी-ई-के से 2 किमी नहर, आनंदपुर साहिब का सौंदर्यीकरण	वाटर कूलर सहित आरओ, कियोस्क, संकेतक, सिविल वर्क	290.64	29.57
8	नेचर पार्क, आनंदपुर साहिब	सीसीटीवी सुरक्षा, वॉच टॉवर, कियोस्क, गज़ेबो, वाटर कूलर सहित आरओ, संकेतक, सिविल वर्क	167.32	33.22
9	विरासत-ए-खालसा, आनंदपुर साहिब	मोबाइल एप्लिकेशन और संपूर्ण ऑडियो सामग्री के साथ - ही 3 डी व्यू कंटेंट	47.67	0.00
10	विरासत-ए-खालसा और दास्तान-ए-शहादत, आनंदपुर साहिब	वीएमएस गैन्ट्री डिस्प्ले/बाहरी संकेतक और आंतरिक संकेतक	82.05	75.26
11	संख्या 2 के अग्रभाग का विकास शहरी प्रवेश द्वार, आनंदपुर साहिब	प्रदीप्तीकरण/चित्रकारी	38.91	0
12	नैना देवी रोड, आनंदपुर साहिब का सौंदर्यीकरण	प्रदीप्तीकरण/चित्रकारी	197.51	0
13	शीतला माता मंदिर, शनि देव मंदिर, एसडीएम रोड और वीआईपी पार्किंग के पास रोड, आनंदपुर साहिब	बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक, पेवर वर्क, प्लांटर्स, स्टॉर्म सीवर	156.77	0
14	किसान हवेली के पार्क के आसपास सौंदर्यीकरण	बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक, ब्रिक फेसिया टाइल वर्क, पेवर, गजेबो, विद्युत सम्बन्धी कार्य	78.43	0
